# BIHAR SPONGE IRON LIMITED.

REGISTERED OFFICE & PLANT: UMESH NAGAR, CHANDIL-832401, DISTT. SARAIKELA - KHARSAWAN, JHARKHAND PHONE (EPABX): 06591-232410, 232417, Fax: 06591-232412

E-mail: bsilchandil@gmail.com / Web: bsil.org.in

BSIL/CS/SE/2021

Dated: 6th May, 2021

To,

The Manager

**BSE** Limited

25th Floor, P.J.Towers,

Dalal Street Mumbai-400001

Scrip Code: 500058

Sub: Newspaper clippings of Publication of Notice of Board Meeting

Dear Sir/Mam,

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, Kindly find enclosed herewith the Newspaper Clippings of publication of Notice of Board Meeting scheduled to be held on Thursday, 13th May, 2021 published in Financial Express (English) and Naya India (Hindi) on 6th May, 2021.

This is for your information and record.

Thanking you,

For BIHAR SPONGE IRON LTD.

HIMANI MITTAL

(COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER)

Encl: as above

#### सार समाचार

# बिजली का करंट लगने

अवतार नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को विज्ञली का करंट तगने से एक युवक की मोत हो गयी। पुलिस सुत्रों ने वहां बताया कि सखनीली गांव निचारती नजजीत सिंह (32) अपने बेंद्र कर्त की तरफ घूमने गया हुआ था। इसी दौरान नीलगाय से खेत को बचाने के लिए लगाये में विध्वत तार के सम्मर्क में आने से करंट लगने से उसकी मौत हो गयी। सुत्रों ने बताया कि घटना की सुचना मिलने पर मोके पर सुव्हीं पुलिस ने पास्टमार्टम कराये जान के बाद शब परिज्ञनी को मोंच दिवार ! को सौंप दिया है।

### दस हजार रिश्वत लेते रोजगार सेवक

मंगलवार को छतरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर से रोजगार सेवक को दस हजार पारसर स राजगार सवक का दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक करुणा नंद राम ने यहां बताया छतरपुर प्रखंड के नद् राम न यहा बताया छतरपुर प्रखंड कं कंचनपुर निवासी परिवादी अंधू नाथ यादव को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के फॉर्म पर हस्ताबार कराना था। इसके लिए रांभू नाथ यादव ने रोजगार सेवक अब्दूल रहमान से सपर्क किया तो उन्होंने इसके लिये दस हजार रिश्वत की उन्होंने इसके लिय दस हजार राश्वत का मांग की। कई बार आग्रह करने के बाद भी जब रोजगार सेवक ने फार्म पर हस्ताक्षर नहीं किया तब परिवादी ने इस संबंध में एसीबी के मेदिनीनगर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आलोक संभावत का सत्यापन किया गया। मामला सही साबित होने पर इस संबंध में कार्रवाई के लिए एक टोम बनाई गयी। श्री राम ने बताया कि गठित टीम को छतरपुर प्रखंड कार्यालय भेजा गया। कार्यालय परिसर में जैसे ही रोजगार सेवक ने बतौर रिश्वत दस ति हो राजगार संघक न बतार रिश्वत देस इजार रुपए लिये तभी एसीबी के जवानों ने उसे रंगे हाथौं गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि रोजगार सेवक को गिरफ्तार करने के बाद मेदनीनगर कार्यालय लाया गया, जहां पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

# से युवक की मौत **छपरा,वार्ता।** बिहार में सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को

# गिरफ्तार डालटनगंज,वार्ता। झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने

# बिहार में <mark>लॉकडाउन का</mark> दिखने लगा असर

पैदल बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है।

**पटना ■** आईएएनएस/डेस्क बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को विहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लंकर समकान है ज्यायत से 15 महं तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस और प्रशासन भी स्टब्स नजर आ रही है। पहल बेजबार पुगने वाल लोगों पर भी पुलिस सकती से पेशा आ रही है। पटना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन का सड़ती से गालन करवान के लिए 50 स्थाना पर चेक गारट बनाए गए. 50 स्थाना पर चेक गारट बनाए गए. 51 रहनों कहा कि बारे का माठे की करा करा में के लिए की स्वार्ट में हैं। उन्होंने कहा कि बारे का माठे का स्वार्ट से गाल करवान के लिए. हैं। उन्होंने कहा कि बगैर काम के निकलने वाले लोगों पर जुमाना लगाया जा रहा है, जबिक जरूरी काम से निकलने वाले लोगों से आवस्थक कारण जाना जा रहा है।

बिहार में कोरोना संक्रमण की बहार में काराना सक्रमण का बहती रफ्तार में पटना में सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं, यही कारण है कि जिला प्रशासन किसी भी हाल में इस चेन को तोड़ना चाह रही है। पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेख्य सिंह ने कहा कि जिले की

#### नीतीश ने लोगों से शादी समारोह टालने का आग्रह किया

पटना,वार्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट को देखते हुए बुधवार को राज्य के लोगों से शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों को टालने का आग्रह किया है। कुमार ने सोशल का आग्रह किया है। कुमार न सारल नेटवर्किंग माझ्ट ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासिया से आग्रह है कि शादी-विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन, जिनमें कई जगहों के लोग जटते हैं. को यदि कह जगहा के लाग जुटत है, की यदि कुछ समय के लिए स्थिगित कर दें, कोरोना संक्रमण के जेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा। कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी



तथा शहर में 50 अतिरिक्त दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। दधर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इचर, लाकडाउन के पहले दिन पटना शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सड़कें सूनी हैं तथा दुकानें बंद हैं। जिन्हें वश्यक सामग्री लेनी थी. वे 11 बजे तक लेकर घरों में वापस लौट

उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार इन दिनों तेज हो गई है। राज्य में मंगलवार को 14,794 नए कोरोना मंगलवार को 14,794 नए कोरोना संक्रमितां की एजचान हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 संक्रमितां की मोत हो गई है। सोमवार को राज्य में 11,407 कोरोना संक्रमित सामने आए थै, जबकि 82 संक्रमितां की मीत हुई थी। राज्य में मंगलवार की सित संक्रमितां में पटना में सर्वाधिक

राज्य मं साक्रय मराजा का सख्या 1,10,430 तक पहुंच गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का पुलिस काट रही चालानः कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन

लाकडाउन क दारान उल्लाबन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगा रही है। विहार सरकार ने कोविड –19 मामलों में वृद्धि के बीच 5 मई से 15 मई तक राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। बिना किसी वैध कारण के सहको पर पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ पुर पाए जान वाल लागा के खिलाक पुलिस सख्ती से काम कर रही है। पटना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए 50 स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं।

2,681 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या

#### बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार पडी सस्त, विपक्ष ने साधा निशाना

बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढार न जाराना सक्रान्य ज नानारा बढाने के बाद भले ही राज्यभर में लॉकडाउन लगा दिया गया हो, लेकिन कोरोना की जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश वामा पड़ गई है। मुख्यमंत्रा मातार कुमार हालांकि लगाता जांच तेज करने की बात कर रहे हैं। इधर, विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकडों पर गौर करें तो 25 अप्रैल के बाद चार मई तक सिर्फ तीन दिन जांच का भई तक स्पेक तान दिन जाचे का आंकडा एक लाख के पार गया है। 25 अप्रैल को जहां राज्यभर में 1 लाख 491 लोगों की कोरोना जांच की गई थी वहीं 26 अप्रैल को मात्र 80,461 नमृनों की ही जांच हुई थी। इसके बाद हालांकि 27 और 28



एक लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। उसके बाद मंगलवार तक किसी दिन भी यह आंकड़ा एक लाख को भी छू नहीं सका है।

भाग के आंकड़ों के मताबिक विभाग के आंकडों के मुगाबिक, 29 अप्रैल को 97,972 नमूनों को जांच हो सकी थी तो 30 औरल को 98,169 लोगों के नमूनों को जांच हुई। इसी तरह 1 मई को 95,686 नमूनों की जांच हुई जूबकि 2 मई को 89 हजार स ज्यादा जांचे का गई। 3 मई को मात्र 72,658 लोगों की ही जांच हो सकी थी। मंगलवार को राज्य में 94 हजार से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई थी। इधर, सूत्रों का कहना है कि कई जगहों पर रेटीजन किट नहीं होने के कारण

एटाजन किट नहां होन के कारण जांच को रफ्तार कर हुई है। इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तंजस्वी यादव ने जांच की गृति धीमी होने पुर सरकार को का गांत धामा हान पर सरकार का धरा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता रोजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अभी आबादी और संक्रमण दर के हिसाब से न्यूनतम 4 लाख जांच प्रतिदिन करने चाहिए लेकिन नीतीश् कुमार इसको दिन-प्रतिदिन घटाते जा रहे है।

#### रधुवर ढास ने बंगाल हिंसा के विरोध में धरना ढिया

पर कमार तथा आगणा का उटाजान कमार ताथलाओं के व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन घटाजों से उत्पन्न पीड़ा तब ओर टीसती है, जब समुचा विपक्ष नपुंसक चुणी ओढ़ दिखाई देता है। मोमवत्ती गैंग विद्यम घुम्स जाता है और अवार्ड वापसी गिरोह ओइल हो जाता है। इन्हें मालूम है कि दुष्कर्म भाज्या की महिलाओं के साथ नहीं

हा जाता हा इन्हें भारपुभ है कि दुष्त्रभ भाजपा का भाहराजाक स्थाय नहां लोकतंत्र के साथ क्याहर हार हार हार कि हो है है। दास ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की युहाई देने वाले पाखंडी दी एम.सी. वालों को यह पता ही नहीं है कि भाजपा संवर्ष राज्य हमले को इंग्लेल हुए ही पहां तक पहुंची है और बंगाल की लड़ाई भी बह लोकतांत्रिक-संवेधानिक तर्रक से लडऩे में समर्थ है। भाजपा तोन सीटों लाकताजरू- स्वयानिक तरफ स लडऩ म समर्थ है। भाजपा तान साटा से 80 तक फ़्हुंची है और वह भी विषम परिस्थित में लड़ी थी। जासन, प्रशासन, गुंड-मवाली और सभी विपक्षी एक साथ थे। लेकिन क्या लोकतंत्र पणिता दल के लोगों का कल्लेआन जायज है। क्या देश में कभी भी कहीं भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ हैं। ममता बनर्जा ने सांविधान की जो शपथ लो है, उसका पालन करें। थोड़ी मानवता दिखाइए। माँ, माटी, मानुष की रक्षा कीजिये।

#### ममता दीदी के संरक्षण में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं हमले: दीपक

**रांची लाता।** पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राबा,वाता। परचम बगाल म भारताच जनता पांट क कावकताओं पर हो रहें हमले के किलागः भाजगा के झारखंड घरंदरा अध्यक्ष सत्त स्वित् दीपक प्रकाश ने बुधवार को यहां प्रतीकात्मक घरना दिया। घरना के माध्यम से श्रीप्रकाश ने कहा कि पश्चिम बगाल चुनाव के बाद राजनीतिक हत्या का सिलसिला लोकताग्रिक व्यवस्था के खिलाफ

बाद राजनीतिक हत्या का सिलसिला लोकतांत्रिक ज्यवस्था के खिलाण है। टीएमसी के गुडी के द्वारा व ममता बनजी के संस्कृण में सिल प्रकार से भाजपा के 17 कार्यकर्ताओं की क्यारत किया गया, और डजारों लोगों के घरों में घुस्कर महिलाओं के साथव द्विज्वाकर व कई महिलाओं से चूष्कर्म, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दुकान लूटे गए वह दुमाग्यवनक है। लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में नोआखाली वाली मासिकता है। प्रमोंने कहा कि बंगाल में नोआखाली वाली मासिकता है। प्रमोंने कहा कि बंगाल में नोआखाली वाली मासिकता है। प्रमोंने कहा कि बंगाल के कार्यकर्ताओं को भी संल्युट करना होगा जो भासिस्ट सरकार के कार्यकर्ताओं को भी संल्युट करना होगा जो भासिस्ट सरकार के खिलाफ लगातार संबर्ध कर रहे हैं बंगाल में जो हालात उत्पन्न हुई है, वह दुखद है। उन्होंने प्रशासन के रयेथे पर भी स्वाल उठाते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि तिस प्रकार से घटनाएं पट रही है प्रमास नकू रहंच वनकर वैतो है। टीएमसी के गुंड लोकतांजिक व्यवस्था में विश्वसान नहीं रखते, वे मासिस्ट तरीके से सता पर कमन रखना चाहते हैं। श्री एकाश ने कहा कि दुख्तिवारी, यो के लिक विव्वति है। श्री एकाश ने कहा कि दुख्तिवारी, यो के लिक विव्वति वाले, यो के लिक दुख्तिवारी, यो के लिक विव्वति वाले, यो के लिक दुखती है। श्री एकाश के लिक विव्वति वाले, यो के लिक दुखती है। श्री एकाश के लिक दुखती वाले, यो के लिक दुखती वाले, यो के लिक दुखती है। श्री एकाश वाले हैं। से लिक हैं। से लिक हैं। से लिक हैं। से श्री एकाश वाले हैं। से लिक हैं ने कहा कि तष्टीकरण की राजनीति करने वाले. सो कॉल्ड बद्धिजीवी. सो कॉल्ड क्षद्य धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करने वाले मौन धारण कर रखे हैं।

## '<mark>लॉकडाउन</mark>' को लेकर राजग में रार

जायसवाल ने कहा. 'जमीनी हकीकत समझ में आई।

**पटना ■** आईएएनएस/डेस्क बिहार में कोरोना संक्रमण की बढी विहार में कारोना सक्रमण को बढ़ां रपतार पर तमाम लगाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया हो, लॅकिन सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में 'लॉकडाउन' के मुद्दे पर प्रारंभ हुई तकरार कम होती नहीं दिख रही है। तकरार कम होता नहा दिखारहा है। बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बुधवार को जदयू नेताओं पर कटाक्ष



करते हुए अपने फेसबुक पेज पर बिना किसी के नाम लिए लिखा, मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं से भी उस्मीद है कि उन्हें वाल नताओं से भा उम्माद है कि उन्ह जमीनी हकीकत समझ में आ रही होगी। द्रअसल, जायसवाल का इशारा जदयू के उस् नेता पर है, जिन्होंने जायसवाल के शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बंदी करने की

सलाह पर उनपर कटाक्ष किया था। जायसवाल ने सर्वदलीय बेठक में कहा था कि कोरोना वायरस के प्रसार को वाकई रोकना है तो हमें हर

हालत में शुक्रवार शाम से सोमवार सबह तक को बंदी करनी ही होगी। सुबह तक का बदा करना हा हागा। इस बयान के बाद जदयू के नेता और सांसद ललन सिंह ने साफ कहा कि बिहार में लॉकडाउन की मांग करने वाल नेता अखबारी हैं और केवल सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं।

रह है। जाहिर है उनका निशाना सीधे भाजपा अध्यक्ष ही थे। ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं।

# सड़क दुर्घटना में

कटिहार, वार्ता। विहार में कटिहार जिले के मुफ्फिसिल थाना क्षेत्र में बुधवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौतृ हो ग्यी। पुलिस युवक का मात हा गया। पुलस सूत्रों ने बताया कि गरभेली गांव के सनीप अनियंत्रित ट्रेक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार की मोके पर ही मोत हो गयी। मूतक की पहचान जबड़ा गांव निवासी सोनू कुमार के रूप में की गयी है। ट्रेक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिये कटिहार सदर अस्पताल भेज

दिया गया हैं।

# युवक की मौत

#### सर्खियां

#### ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर की कालाबाजारी के आरोप में 4 गिरफ्तार

पटना,आईएएनएस। पटना पुलिस ने बुधवार को अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर वेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना सेंटल के डीएसपी भास्कर रंजन ने पटना के राजीव नगर दलाके में स्थित एक घर में छापा मारकर चार नगर इलाक मास्यत एक वर में छोपी मारकर चार लोगों को गिरुप्तार किया है। रंजन ने कहा, हमें राजीव नगर में एक घर से ऑक्सीजन सिलिंडर के रेगुलेटर्स की अवेध बिक्री के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद एक टीम गठित की गई, जिसने उक्त जगह पर छापा मारा। हमने उनके कब्जे से 42

उठ जनह पर जाना नारा हमन उनक अब्ब स 42 रेगुलेटर्स बरामद किए हैं। रंजन ने कहा, संक्षिप्त पूछताछ के दौरान, अभियुक्तें ने स्वीकार किया कि वे एक रेगुलेटर को

#### जिलाधिकारी व प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा की गई वर्चुअल मीटिंग

कुशीनगर, संबादसूत्र। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कविड नियंत्रण पर वर्चुअल मीटिंग बुधवार को 12:30 वर्ज आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी श्री संजय बजी के साथ-साथ जिलाधिकारी श्री एस० राज्लिंगम भी मोजूद रहें। उक्त बैठक में जिलाधिकारी श्री लिंगम ने प्रभार उक्त विकार गाजिलाबकार आंतिराग ने प्रभार जिलाधिकारी श्री खत्री, मुख्य विकास अधिकारी, तथा तमाम अधिकारीगण की टीम जिन्होंने कॉविड नियंत्रण एवं पंचायत चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई को व्यक्तिगत तौर पर हृदय से बधाई दी, तथा

ानमाइ का व्यक्तिगत तार पर इंदय से बधाई दा, तथा पंचायत चुनाव के सफलतायुविक सापन कराने के लिए भी अधिकारियों को वधाई दी। इस बेटक में प्रभारी जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने जिलाधिकारी श्री लिंगम को कोविड नियंत्रण हेंतु टीम 9 के गटन की सूचना दी।

8,000 रुपये में बेच रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपियों पर महामारी अधिनयम, चिकित्सा उपकरणों और अवेध विषणन जैसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 'उन्होंने कहा कि वह अभी भी मामले के संबंध में सांठगांठ और वह अभा भा मामल के सबधे में साउगाठ आर अपूर्वि ख़ब्बला का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है। बिहार में महामारी के बीच कथित तौर पर चिकित्सा उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन सिलंडर की खूब कालाबाजारी हो रही है।

कोरोना की इस त्रासदी के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन और इससे जुड़े उपकरणों की कमी देखने को मिल रही है।

#### झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को कराना होगा कोविड टेस्ट

रांची.वार्ता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर रांजी, बातां। कोरोना संक्रमण के फेलाव को लेकर बढ़ते खतरे को वीच झारखंड वापम लोने वाले अब सभी प्रवासी अमिकों को कोविड टेस्ट कराना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदंद सिंह के हताश्वर से बुच्चार को गृह, करा और आयाद्य प्रवंधन विभाग की ओर से आदंश जारी कर दिया गया है। आपवा प्रवंधन विभाग हारा जारी आदंश में कहा गया है कि जिन प्रवासी अमिकों को कोविड जांच रिपर्टेनिगॉटिड आएगी, उन्हें भी सात दिनों तक संस्थागत क्वारटाईन सेट्टर में उसन बोगा। विका एक्यासन की ओर में सेंटर में रहना होगा। जिला प्रशासन की ओर से सरर म रहना हागा। जाला प्रशासन को ओर स ब्लांट्यहन रोडर में रागी गुलन, तुबिभाएं उपलब्ध करायी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि सात दिनों का क्वास्टाइन सेटर में रहने के बाद घर जाने के पहले प्रशास श्रमिकों को दुबारा रेपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा।

# कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर सरकार की पैनी नजर है: हेमन्त

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर सरकार की पैनी नजर है और इस महामारी को लेकर जैसे-जैसे चुनीतिया सामने आएगी उससे निपटने के लिए सरकार रणनीति तैयार करों। सोर्त ने बुधवार को कोडरगा जिले में नविनर्गित इंडेड कोरिंड हेल्य सेंटर में 250 बेड और सरकारी कीर्याड सदर अस्पताल में 20 ऑक्सीजन पाइप लाइन युक बेड का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद कला कि संक्रमण को रोकने तथा संक्रमितों के समुचित और बेहतर उपचार के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। संक्रमण पर सरकार की पैनी नजर है उन्होंने कहा कि इस वैश्विक संक्रमण



से निपटने की दिशा में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की

मुख्यमंत्रा न कहा कि काराना का दूसरी लहर काफी खतरानक सवित हा रही है। यह हमारे शरीर को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। इस सक्रमण से बचाव के लिए दवाइयों से ज्यादा और पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसी स्थिति में

राज्य के अस्पतालों में मरीजों को राज्य के अस्पताला में मराजा का ऑक्सीजन युक्त बंड अथवा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। गुड़्यांत्री ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य एवं नियमित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकृता है। संक्रमितों को ऑक्सीजन के लिए किसी तरह की

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी की भयावहता को कता के अभाव में लोग नहीं जागरूकता के अभाव म लाग नश समझ पा रहे हैं। इस वजह से यहां संक्रमण तेजी से फेल रहा है। इस संक्रमण से लोगों की मौत भी हो रही .लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के ह ,लाकन काविड प्राटाकाल क तहत उनका बाद एंसकार नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों में संक्रमितों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट करने अथवा उनका इलाज कराने की नितांत जरूरत् है, इसाज करान का निर्तात जरूरत है, ताबि संक्रगण के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे इस दिशा में अपनी जिम्मेदारियों

समाचार-आसपास

#### सारण में दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या

**छपरा, वार्ता।** बिहार में सारण जिले के अवतार

छपरा, वाती। बिहार में सारण जिल के अवतार नगर धाना क्षेत्र में बुधवार को दहेन की मांग को लेकर एक गिरिता की हत्या कर दी गयी।
पुलित सुत्रों ने यहां बताया कि मुजफरपुर जिले के कोटी थाना क्षेत्र के पानपुर करियात गांव निवासी ऐसेंजर साह ने आज अवतार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री अनिता की साही वर्ष 2016 में आवतार नगर बाना क्षेत्र के हराजी गांव निवासी अमर नाथ साह के पुत्र पवन कुमार साह के साथ की थीं शादी के बाद से ससुत्यल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर अनिता को प्रताहित किया करते थे। अनिता के ससुराल के पड़ोंसियों ने उन्हें

मोबाइल पर सूचना दी कि उनकी पुत्री की हत्या करने भावाइल पर सूचना द्वा 10 उनका पुत्रा को हत्या करन के वाद शव को छोड़कर रासुराज वाले फरार हो गये हैं। इसके वाद जब वे अनिता के ससुराल पहुँचे तो वहां उन्होंने अपनी पुत्री का शव ओगन में पड़ा हुआ पाया, जिसके वाद उन्होंने मामले की स्चना अवतार नगर याना पुलिस को दी।

#### हथियार के साथ कुख्यात अपराधी समेत तीन गिरफ्तार

खगड़िया, वार्ता। बिहार में खगड़िया जिले के मानसी खगाड्या, वाला। ।बहार में खगाड़या। जाल के मानसा धाना क्षेत्र से बुच्चार को विशेष कार्यवल (एराटीएक) ने हथियार के साथ कुख्यात अपराधी छबीला यादव समेत तीन अपराधियों को गिरस्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अमिरिंग कुमार ने यहाँ यहां वाला कि सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के

सहयोग से रोहियार गांव स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी सहयाग सं शाहणार गावा स्थत एक ठिकान पर छोपासी र की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अपराधी रूपेश साव प्रायल हो गया। मौके से कुच्चाल अरायधी छवीला यादव और उसके गिगृह के दो सदस्य रूपेश साव और गुकेश् कुगार उर्फ छोटू साव को गिरफ्तार कर लिया

गया है। श्री कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक विदेशी राइफल, एक देशी राइफल, एक पिस्तील, 75 कारतुस, दो बिडोलिया, तीन मोबाइल फोन और वो खोखा बरागर किया गया है। खोला यादव की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार ने उसपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। घायल रुपेश साव को खाड़िया सरद अपराला में मती कराया गया है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है।

#### चुनाव में 'चक्रव्युह' की रचना नहीं होती, जनादेश मांगा जाता है: भाजपा

होतीं, जातादिश मांगा जाता है: भोजापा पटना, आइंएएनएस। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने पिचया बंगाल में हो रही हिंसा की निदा करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकती गुंडई पर उत्त आए है। गानाण ने बेला किरा के ना एक्ट इसारों ही दशारों में पूर्व मंत्री तथा जदय नेता उपेंद्र कुशवाहा पर भी निवास तथा है। विधायक और भाजपा के परका मांगे हुए मांगे तथा जदय नेता उपेंद्र कुशवाहा पर भी निवास को परिवास के अपिकार के परिवास के प्राथम के प्रति मांगे ने वृष्वात के बाद हो रही हिंसा की निदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में दिला को कोई रखान नहीं है। उन्होंने आरोप नाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकती गुंडई पर उत्तर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सुताब एक प्रक्रिया है, उन्होंने कहा कि लाकतंत्र में उन्होंने कहा कि लाकतंत्र में उन्होंने कहा कि लाकतंत्र में सुताब एक प्रक्रिया है, असमें चक्रक्युंड की रस्ता नहीं होती बल्क जनता से जनादेश मांगा जाता है।

#### बिहार स्पोन्ज आयरन लिमिटेड जीवर्णाक । 27106 IH1982PI C001633

www.bsil.org.in) और बोर्ड के आदेश द्वार बिहार स्पॉज आयरन न्निकिन्

# 14 FINANCIAL EXPRESS पजाब नेशनल बैंक 🥥 punjab national bank

# भरोसे का प्रतीक! ....the name you can BANK upon GSAD SECTION, THIRD FLOOR, C-13, SECTOR-1, CIRCLE OFFICE: NOIDA-2013( Due to unavoidable circumstances and operational convenience, it has been acceptance of advertising

decided to merge our Branch Office: (eOBC) (180810) Sector-66, Gautam Budh copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Nagar, UP-201301 with BO: PNB (799100) sector-66, Gautam Budh Nagar, UP-Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or

All customers of BO: Sector-66, Gautam Budh Nagar, UP-201301(eOBC) damage incurred as a result of transactions with companies, (180810) are hereby informed that all bank dealings will be conducted from sectorassociations or individuals advertising in its newspapers 66, Gautam Budh Nagar, UP-201301(PNB) (799100) as usual w.e.f or Publications. We therefore 07.06.2021 (Tentative). Inconvenience caused on account of this is regretted. recommend that readers make necessary inquiries For any assistance/enquiry Kindly contact Branch Head Ms. Amita Negi Sector-66, before sending any monies or Gautam Budh Nagar, UP-201301 (eOBC) (180810) on Mobile No. 8010589027 entering into any agreements with advertisers or otherwise **Authorized Officer** acting on an advertisement in **Puniab National Bank** any manner whatsoever.

Date: 05.05.2021 Place: Noida **IDFC FIRST Bank Limited** 

AUTHORIZED OFFICER -Prashant Yadav CONTACT NUMBER -6393833294 & 9874702021

NOTICE TO GENERAL PUBLIC

201301 on 07.06.2021 (Tentative).

(Formerly known as Capital First Limited)

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031.

(Formerly known IDFC Bank Ltd)

**IDFC FIRST** 

#### APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of IDFC Bank Itd now IDFC FIRST Bank Limited, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 1, for Recovery of INRRs. 39,85,089,54/- as on 20-02-2019due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Home Finance Limited and Capital First Ltd ) from, Gautam Chakraborty, Seema Chakaraborty(Borrower-Co-borrower(s). **AUCTION STATUS** 

Reserve Price	INR 3,259,845/-
Earnest Money Deposit Amount	INR 325984/-
Date of Submission of BID/Deposit Earnest Money	24.05.2021 Up to 5.00 PM
Date of Inspection of Property	18.05.2021 11.00 AM to 4.00 PM
Date of Auction	25.05.2021 11.00 AM to 1.00 PM
Property details	A" the piece and parcel of the property consisting of Municipal Property No 70, Chandeshwar Nagar Mouza - Rishikesh, Distt Dehradun, Rishikesh, Uttaranchal, 249202

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link i.e. https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC. Disclaimer: Please note that the said notice is issued for sale of immovable property only and IDFC FIRST Bank Limited has no right to sale the movable assets, if any, present at the immovable property. **Authorised Officer** IDFC First Bank Limited Date:04.05.2021

AICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND FTARAKKI KAREINI

Place: Dehradun.

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Overnight Fund (the Scheme) Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Scheme, subject to availability of

Name of the Scheme/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit)	NAV as on May 4, 2021
	(Face value of	(₹ per unit)
	₹ 100/- each) <sup>@#</sup>	

ICICI Prudential Overnight Fund Quarterly IDCW 0.6661			
0.6661	100.6663		
0.6900	100.8766		
	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		

- @ The payout will be IDCW per unit as mentioned above or the distributable surplus to the extent of NAV movement since previous record date, available as on record
- # Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

distributable surplus on the record date i.e on May 11, 2021\*:

or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Sd/-**Authorised Signatory** 

No. 004/05/2021 To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness

Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com Mutual Fund investments are subject to market risks,

read all scheme related documents carefully.



Borrower: J).Smt,Sukhvinder Kaur

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

Guarantor: 1.S. Rajinder Singh

2. Smt. Surjit Kaur

3. S.Arvind Singh

Date: 06.05.2021

Place: Mumbai

Date: May 5, 2021

# PUNJAB & SIND BANK Rajouri Garden, New Delhi- 110027 Ph: 011-25433893

Notice U/s 13 (2) of SARFAESI Act 2002

This Demand Notice is hereby given under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 here in after calling upon the under mentioned Borrowers / Guarantors to repay, the Amounts outstanding for the Credit Facilities granted to them / on their Guarantee, within 60 days from the date of this notice. The said notice has been returned undelivered by the postal authority. If you fail to repay to the Bank the below mentioned amount with further interest and incidental expenses, costs etc. in terms of this

applicable provisions of the said Act. You are also put on notice that in terms of sub-section 13 of Section 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed below of this notice without obtaining within consent of the Bank.

notice u/s 13(2) of the Act, the Bank will exercise all or any of the rights detailed under Sub-Section (4) of Section 13 and under other

The details of the account and Secured Assets along with Amount Outstanding is given below.

Name of Borrower and Guarantor	Description of the property mortgaged / charged	Amount Outstanding (in Rs.)
Borrowers : A).S.Arvind Singh Guarantor : 1.Smt. Ranvir Kaur 2.S. Jaswinder Singh 3.Smt.Surjit Kaur	Residential Property bearing no.G-4,Front side portion of Second Floor without roof right ,Mansoraver Garden New Delhi in the name of S. Arvind Singh S/o Late S. Makhan Singh	Rs. 1807012.77 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon
Borrowers: B).S.Arvind Singh Guarantor: 1.Smt. Ranvir Kaur 2.S. Jaswinder Singh 3.Rajinder Singh	Residential Property bearing no.G-4,Front side portion of Second Floor without roof right ,Mansoraver Garden New Delhi in the name of S. Arvind Singh S/o Late S. Makhan Singh	Rs.614542.76 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon.
Borrower: C)S.Jasvinder Singh Guarantor: 1.Smt. Manpreet Kaur 2. Smt.Surjit Kaur 3. S.Arvind Singh	Residential Property bearing no.G-4, Backside side portion of Second Floor without roof right, Mansoraver Garden New Delhi in the name of S. Jasvinder Singh S/o Late S. Makhan Singh.	Rs.1861798.51 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon.
Borrower: D)S.Jasvinder Singh Guarantor: 1.Smt. Manpreet Kaur 2. S.Rajinder Singh 3. S.Arvind Singh	Residential Property bearing no.G-4, Backside side portion of Second Floor without roof right, Mansoraver Garden New Delhi in the name S. Jasvinder Singh S/o Late S. Makhan Singh.	Rs.692366.48 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon.
Borrower: E)S.Raja Singh Co-Borrower: S.Rajinder Singh Guarantor: 2.Smt. Sukhvinder Kaur	Commercial Property bearing no. 10, DLF Industrial Area, Moti Nagar New Delhi-110015 in the name of S. Rajinder Singh S/o Late S. Makhan Singh.	Rs.2042307.53 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon
Borrower: F)S.Rajinder Singh 2. Ms Ramneek Kaur Guarantor: 1.S.Arvind Singh	CAR ERITIGA VDI Car Registration no DL9CAK0550 the name of S. Rajinder Singh S/o Late S. Makhan Singh	Rs.122900.19 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon.
Borrower: G) S.Rajinder Singh Guarantor: 1. Smt. Sukhvinder Kaur 2. Smt. Surjit Kaur 3. S.Arvind Singh 4. S.Surinder Pal singh	Residential Property bearing no.G-4,Front side portion of First Floor without roof right, Mansoraver Garden New Delhi in the name of addressee No.1 S. Rajinder Singh S/o Late S. Makhan Singh 68990	Rs.1650720.14 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon.
Borrower: H)S.Rajinder Singh Guarantor: 1. Smt. Sukhvinder Kaur 2. S.Jasvinder Singh 3. S.Arvind Singh	Residential Property bearing no.G-4,Front side portion of First Floor without roof right ,Mansoraver Garden New Delhi in the name of S. Rajinder Singh S/o Late S. Makhan Singh.	Rs.213198.51 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon.
Borrower I)Smt.Sukhvinder Kaur Guarantor: 1.S. Rajinder Singh	Residential Property bearing no.G-4,back side portion of First Floor without roof right, Mansoraver Garden New Delhi in the name of Smt. Sukhvinder	Rs.204810.19 as on 30.04.2021 plus further interest, expenses & other charges etc. thereon.

Kaur W/o S.Raiinder Singh.69150

Sukhvinder Kaur W/o S.Rajinder Singh 68991

Residential Property bearing no.G-4,back side Rs.1751590.27 as on 30.04.2021

portion of First Floor without roof right, Mansoraver | plus further interest, expenses &

Garden New Delhi in the name of Smt. other charges etc. thereon

# DHOLEWAL, LUDHIANA-141003, TELE NO: 5068260,61,65, Ref:/IFB/2020-21 Name of the Account/Borrower: M/s Jindal Medicot Ltd.

# **All Advertisement Bookin** 0120 - 6651214

S. E. RAILWAY TENDER

e-Tender Notice No.: 4277-GRC-CE-C HQ-22-2021, dated: 05.05.2021 e-Tenders are invited by the Chief Engineer (Con)/HQ, South Eastern Railway, Garden Reach for and on behalf of the President of India for the following work. The tender has been uploaded on website www.ireps. gov.in The tender will be closed at 12.00 hrs. on due date. Brief Description of Works: Execution of Earthwork in formation in Embankment/Cutting, extension of Minor Bridges, Permanent Way linking, Ballast supply and allied works between Balasore (Ex) (Km 229.835) to Rupsa (Ex) (Km 214.50) including all yard in connection with the construction of 3rd line between Narayangarh-Bhadrak of South Eastern Railway. Approx Cost 96.14 Crore. Completion Period: 24 nonths. Closing Date: 07.06.2021 nterested tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full details description / specification of the tenders and submit their bids online. In no case manual tenders for these items will be accepted. N.B.: Prospective bidders may regularly visit www.ireps.gov.in to participate in all other tenders. (PR-58)

Saraikela-Kharsawan, Jharkhand- 832401 Email: companysecretary@bsil.org.in Website: www.bsil.org.in **NOTICE** 

Notice is hereby given pursuant to Regulation

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e.(www.bsil.org.in) and the website of the stock exchange i.e. (www.bseindia.com)

Bihar Sponge Iron Limited

Place: New Delhi Himani Mittal Date: 05.05.2021 **Company Secretary** 

CIN: L15421UP1991PLC019160 Regd. Office: Village Loyan Malakpur, Teh: Baraut Baghpat U.P. Email: investors@sbecsugar.com Website: www.sbecsugar.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 Obligations and Disclosure Requirements of Directors of the Company will be held or

Consolidated) of the Company for the year

ended on March 31, 2021. The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e www.sbecsugar.com) and the website of the

(A GOVT, OF INDIA UNDERTAKING) SPECIALISED CORPORATE FINANCE BRANCH

**PUNJAB & SIND BANK** 

Dated: 04.05.2021

E-MAIL: ifb.ludhiana@psb.co.in **Public Notice** 

Name of proprietor/ partner/ director: Mr. Sandeep Jindal S/o Yash

Details of Guarantor: Mr. Sandeep Jindal S/o Sh. Yash Paul Amount Outstanding: Rs. 15,08,78,652.80 + Intt. w.e.f 01.05.2021

It is hereby notified to public at large that M/s Jindal Medicot Ltd. has availed loan to the tune of Rs. 4,00,000,00,00 from the bank. Mr. Sandeep Jindal S/o Yash Paul is a Guarantor in the above account. Due to default in repayment, the account has been declared as NPA on 30.09.2013 and above named Guarantor (who is also a director of the borrower company)\* has been declared as 'Wilful Defaulter' by the Bank on 18.03.2021 The Borrower M/s Jindal Medicot Ltd., Guarantor Mr. Sandeep Jindal S/o Yash Paul is liable to pay to the Bank Rs 15,08,78,652.80 along with further interest thereon w.e.f. 01.05.2021 and other costs/monies for which bank has initiated recovery proceedings against him/her. Public at large is requested to take a note of the above and not to deal with the assets of these persons and also to inform the details of assets of these persons transactions made by them etc. to the Bank so as to enable us to recover the public money. PLACE: LUDHIANA DATE: 06.05.2021 **BRANCH MANAGER** 

#### NOTICE FOR SALE OF ASSETS **CLUTCH AUTO LIMITED (IN LIQUIDATION)**

(A company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated February 15, 2018) Office of the company: 2-E/14 IST Floor Jhandewallan Extension New Delhi DL 110055 IN. Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

LAST DATE TO APPLY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS: 18TH MAY, 2021 DATE AND TIME OF E-AUCTION: 21ST MAY, 2021,12PM TO 3PM (WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES EACH)

Sale of Assets and Properties owned by Clutch Auto Ltd. (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Principal Bench.

The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://www.eauctions.co.in Basic Description of Assets and Properties for sale:

A ===4	A dalama a di Arra a	Disal No.	Donomio Duino
Asset	Address/Area	Block No.	Reserve Price (INR)/EMD(INR)
Scrap	Plot No.1A, Sector 27-D, 12/4, Mathura Road, Faridabad, Haryana-121003	1	5,42,500/54,250

The terms and conditions of E-Auction and other details of properties are uploaded at the website i.e. http://www.eauctions.co.in Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same.

Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar): Mr. Dixit Prajapati Email id-admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 7874138237 Contact person on behalf of Liquidator: CA. Swati Arora, +91 9999781153 Email id – liquidator.clutch@gmail.com Tel No., Mobile. No.: +91 9810063161

Date: 6thMay, 2021 Place: New Delhi Arunava Sikdar, Liquidator IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00022/2016-17/10047

Regd. Address: C-10, LGF, Lajpat Nagar Part-III, New Delhi-110024 FORM A

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

# CLARION TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED

PUBLIC ANNOUNCEMENT

	RELEVAN	T PARTICULARS
1.	Name of Corporate Debtor	<b>CLARION TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED</b>
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	11/04/2012
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U70100DL2012PTC234194
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	(As per the MCA website): Flat No. 2, First Floor, F-50 B Madhu Vihar Ext., Patparganj, New Delhi - 110092 IN
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	03/05/2021
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	29/10/2021 (180 days beginning Insolvency Commencement date)
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Mukesh Gupta Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01494/ 2018-2019/12254
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	Address: F-1, Milap Nagar, Uttam Nagar, New Delhi – 110059 E-mail: camukeship@rediffmail.com (This email is not to be used for sending claims)
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Address: F-1, Milap Nagar, Uttam Nagar, New Delhi – 110059 E-mail: cirp.clarion@gmail.com
11	Last date for submission of claims	17/05/2021

Last date for submission of claims 17/05/2021 Classes of creditors, if any, under clause (b) Real Estate Allottees / Home buyers of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional Names of insolvency professionals identified (1) Mr. Arvind Mittal to act as authorised representative of creditors | Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01358/2018-19/12081

in a class (three names for each class) Add.: 1900, Madanpur Khadar, JJ Colony, Phase 3, Sarita Vihar, New Delhi -110076 Email: clarion.arcirp@gmail.com (2) Mr. Devendra Umrao Reg. No.: IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-2020/12640 Add.: B-43A, First Floor, Kalkaii, New Delhi -110019. Email: dev.umrao@gmail.com (3) Mr. Ashish Singh Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00416/2017-18/11230 Regd Add.: 811, 8th Floor, Agganwal Millenium Tower , Netaji Subhash Place, Pitampura, New

Delhi - 110034. Email: Isaadvocates@gmail.com

14. (a) Relevant forms and a) Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives b) Detail of authorized representatives is available are available at: at Point 13 above. Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi, Court No. - VI has ordered the

commencement of a corporate insolvency resolution process of M/s Clarion Townships Private The creditors of Clarion Townships Private Limited are hereby called upon to submit their claims with

proof on or before 17/05/2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class i.e. (Real estate Allottees / Home Buyers) in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties

Place: New Delhi

Interim Resolution Professional for ClarionTownships Private Limited (under CIRP) Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254

# ♦ Indian Overseas Bank

PANCHKULA BRANCH - S.C.F No. 50, Sector 9, Panchkula - 134109

Ph.: 0172 - 2578587, E-mail: iob1419@iob.in DEMAND NOTICE Dated: 28.04.2021

Demand Notice to Borrowers /Mortgagors / Guarantors Under Sub-Section(2) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002.

Borrowers:- M/S Garg Lubricants, Plot No. 120 - C, EPIP, Phase -1, Village Jharmajri, Baddi, District Solan, Proprietor:- Mr. Ajay Garg, Flat No 680, First Floor, Omaxe Cassia, Phase 3, New Chandigarh, Punjab -140901, Guarantor:- Mr. Darshan Garg, Flat No 680, irst Floor, Omaxe Cassia, Phase 3, New Chandigarh, Punjab -140901.

Re.: Your Credit facilities with Indian Overseas Bank, Sector 9, Panchkula Branch. (1) You, the above named borrowers of our bank have availed the following credit facilities rom our Sector 9. Panchkula Branch:

The details of credit facilities with outstanding dues are as under:

Sr. No.	Nature of Facility	Limit (in Lakhs)	Rates of Interest (including Overdue Interest) & Rests	Total Dues* as on 31.03.2021 (in Rs.)
1.	Cash Credit	5.00	10.75	Rs. 5,89,750.25
	Working Capital TermLoan	10.00	9.30	Rs. 10,67,764.75
3.	Term Loan	30.00	11.60	Rs. 9,26,036.36
4.	Term Loan	6.00	11.35	Rs. 2,16,832.41
Wit	h further interest at	contractual ra	tes/rests will become p	ayable from the date

mentioned above till date of payment. The above named guarantors referred under SI. Nos 3 have executed guarantee dated

25.04.2019 and thereby guaranteed payment on demand of all moneys and discharge all obligations and liabilities then or at any time thereafter owing or incurred to Indian Overseas Bank by the borrowers for the aggregate credit limits of Rs 51,00,000/- together with agreed interest, charges etc.

The credit facilities were secured by the assets mentioned below by way of

nortgage/hypothecation/hire purchase/ lease(as applicable) standing in the name of the borrower Nos 1. They were also secured by mortgage of property in the name of borrower / nortgagor mentioned in SI.No 1. They were also secured by mortgage of properties in the name of mortgagor / guarantor Nos 1 hereinabove. The guarantors mentioned under St. Nos 3 of you have given personal guarantee for the

credit facilities as given above. You have acknowledged from time to time the liabilities mentioned herein above through

various documents executed by you. (2) The details of securities in favour of the Bank for the aforesaid credit facilities are:

Sr. No.	Nature of Security (Hypothecation / Mortgage etc.,)	Particulars of securities [Full description with location, four boundaries, measurement on four sides total extent and name of owner to be given]
1.	Hypothecation	Hypothecation of Sub-Station for Electricity Connection.
2.	Hypothecation	Hypothecation of Stocks and Book Debts
3.	Mortgage	Property at 120 C, EPIP, Phase-I, Jharmajri, Tehsil -

Baddi, Distt. - Solan. (3) Consequent upon defaults committed by the above named borrowers in payment of the principal debt / interest as per agreed terms, loan account mentioned above have been lassified as Non-Performing Asset on 30.09.2020 (date of classification as NPA) as per teserve Bank of India guidelines and directives. Despite our reminders for regularization of your account, you have not repaid the overdue loans including interest thereon.

(4) Since you the above named borrowers referred under St. Nos 1 and 2 have failed to meet the liabilities in respect of the credit facilities duly secured by various securities mentioned above and upon classification of your account as a Non-Performing Asset, we hereby recall our advances to SI Nos 1,2 & 3 of you and give you notice under sub-section (2) of section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and call upon you to pay in full and discharge your liabilities to the bank aggregating to Rs 28,00,383.77, as detailed in para 1 above, with further interest as mentioned in para 1 compounded with monthly rests as agreed, from the fate mentioned above, within 60 days from the date of receipt of this notice. (5) The above named Mortgagor / Guarantor Nos 1,2 & 3 have given undertaking for

repayment / guarantee for the credit facilities taken by the borrowers and have also mortgaged the properties herein mentioned to secure the above said credit facilities. Since the borrowers have committed defaults in repayment, the mortgagors/guarantors have become liable to pay to us in terms of the guarantee, the amounts due to the Bank as per the loan / credit facilities aggregating to Rs 28,00,383.77 together with further interest as mentioned in para 1 compounded with monthly rests as agreed and we hereby invoke the guarantee against the mortgagors / guarantors who have given non-agri securities enforceable under the SARFAESI Act namely M/S Garg Lubricants & Ajay Garg of you and call upon you to pay the said amount within Sixty Days from the date of receipt of this notice. Please be advised that the guarantors liability is co-extensive with the liability of the borrowers. (6) We further give notice to the borrowers namely M/S Garg Lubricants & Mr. Ajay Garg and Mortgagors / Guarantors who have given Non-Agri Securities Enforceable under the SARFAESI Act namely Garg Lubricants & Ajay Garg that failing payment of the above amount in full with interest and charges etc till the date of payment, we shall be exercising all or any of the rights vested on us, under sub-section (4) of section 13 of the said Act. (7) Please note that in law the borrowers and guarantors are jointly and severally liable to

repay the dues with further interest and charges etc. (8) Please note that interest will continue to accrue at the rates and rests as agreed for each credit facility until full repayment.

(9) Your attention is also invited to Sub-Section (13) of section 13 of the said Act in terms of which you are restrained from transferring/alienating/shifting any of the secured assets referred to above by way of sale, lease or otherwise, without obtaining our prior written consent. Please also note that non-compliance / contravention of the provisions contained in the said Act or Rules made thereunder, is an offence which is punishable with imprisonment and/or fine as provided under section 29 of the Act.

loans of the said borrowers and as such we advise you to prevail upon the borrowers to repay the dues as per our demand since we have the right to initiate action against you simultaneously in accordance with law, for recovery of our dues based on your personal (11) We also put all of you on notice that if the account is not regularized/ repaid within the

(10) The guarantors referred under SI. Nos 3 have given personal guarantee to secure the

stipulated time and in case of the Bank classifying you as a willful defaulter as per RBI Guidelines, the Bank reserves its rights to publish your photograph in newspaper(s) with your name, address, details of default, dues etc., in accordance with RBI Guidelines

besides initiating all recourses available to the Bank for recovery. (12) We also advise you that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we have for recovery of the

above said dues as well as our right to make further demands in respect of sums due and (13) Further, your attention is invited to provisions of Sub-Section(8) of the Section 13 of the

Act, in respect of time available to you, to redeem the secured assets.

**Authorised Officer** Place: Panchkula Date: 05.05.2021

CONSOLIDATED

# SRF LIMITED

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn., Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

STANDALONE

STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

STANDALONE					CONSOCIDATED				
		QUARTE	R ENDED	YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
SI. No.	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Mar-20
wo.		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
			Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	2123.21	1646.52	6988.32	6330.84	2607.65	1857.83	8400.04	7209.41
2	Profit / (Loss) for the period before tax from continuing operations	432.93	194.71	1309.97	780.48	511.66	219.64	1612.65	914.70
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax from continuing operations*	311.04	174.58	925.06	793.59	381.45	194.16	1198.25	915.90
4	Profit / (Loss) for the period before tax from discontinued operations				241.82	(0.59)	(9.32)	(2.73)	155.85
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax from discontinued operations		30	*	180.59	(0.53)	(8.41)	(0.31)	103.19
6	Net Profit / (Loss) for the period after tax (including discontinued operations)	311.04	174.58	925.06	974.18	380.92	185.75	1197.94	1019.09
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	338.15	97.62	1013.34	861.64	387.61	60.01	1325.44	900.08
8	Paid up Equity Share Capital	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48	59.25	57.48
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt			250.00	300.00		200.000.000	250.00	300.00
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
	(a) Basic :	52.50	30.37	158.72	169.48	64.30	32.32	205.54	177.29
	(b) Diluted:	52.50	30.37	158.72	169.48	64.30	32.32	205.54	177.29
1	Debenture Redemption Reserve		- Carrette	62.50	75.00		***************************************	62.50	75.00
2	Debt Equity Ratio			0.42	0.59			0.51	0.84
13	Debt Service Coverage Ratio			1.74	2.59			2.02	2.34
14	Interest Service Coverage Ratio		,	13.57	8.06			14.01	7.52

\* Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 was introduced by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019, the Company had re-measured its deferred tax balances. Consequently, tax credit (net of MAT adjustment) of Rs. 136.11 Crores was recorded in the Statement of Profit and Loss during the year ended March 31,2020.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and yearly Financial results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com).

New Delhi

For and on behalf of the Board Ashish Bharat Ram **Managing Director** 

(Rs. in Crores)

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

Place: Gurugram

Date: May 05, 2021

Authorised Officer, Punjab & Sind Bank

BIHAR SPONGE IRON LIMITED CIN: L27106JH1982PLC001633 Regd. Off.: Umesh Nagar, Chandil, Distt.

> 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Thursday, May 13, 2021, inter alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the year ended on 31st March, 2021.

By Order of the Board

SBEC SUGAR LIMITED

read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Regulations, 2015, that a meeting of the Board Thursday, May 13, 2021, inter alia to consider and approve the following: Audited Financial Results (Standalone

Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com). By Order of the Board For SBEC Sugar Limited

Place: New Delhi Ankit K. Srivastava Dated: 05.05.2021 **Company Secretary**